



सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आज 19 जून को चुनिंदा बड़े पार्कों में वांशरूम्स को दुबारा खोल रही है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (19 जून, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन को दुबारा खोलने और बहाली योजना के हिस्से के तौर पर, ब्रैम्पटन में आज, 19 जून को चुनिंदा बड़े पार्कों में वांशरूम्स दुबारा खोले जा रहे हैं।

सिटी, समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहद गंभीरता से लेती है। चूंकि हमारे समुदाय में पार्क दुबारा खुल गए हैं। अगला कदम निवासियों की इस ज़रूरी सुविधा के लिए वांशरूम्स खोलना है।

वांशरूम्स, सोमवार से शुक्रवार, शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक और शनिवार व रविवार को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक, नीचे दिए गए पार्कों में खोले जाएंगे:

- बैट्समैन पार्क (Batsman Park)
- चिंग्कूज़ी पार्क (Chinguacousy Park)
- क्रेडिटव्यू सैंडलवुड पार्क (Creditview Sandalwood Park)
- एल्डोराडो पार्क (Eldorado Park)
- गेज पार्क (Gage Park)
- मैककैंडल्स पार्क (McCandless Park)
- टेरामोटो पार्क (Teramoto Park)

वांशरूम्स के क्षेत्र में सफाई कर्मचारी मौजूद रहेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी बार-बार सफाई की जा रही है। निवासियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा के उपायों का पालन करने की सलाह देने के लिए, साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

कोविड-19 से सुरक्षा संबंधी उपाय

सिटी का, निवासियों से अनुरोध है कि वे हैंड सैनिटाइज़र या वाइप्स जैसे खुद के रोगाणु नाशक पदार्थ साथ में रखें, बार-बार अपने हाथ धोएं और खांसते या छींकते समय मुंह को अपनी कोहनी से ढक लें और गैर-मेडिकल मास्क पहनें। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और सिटी ऑफ ब्रैम्पटन व रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को संपर्क करने के लिए, किसी भी समय 311 पर फोन करें।



Service and Information Update

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca